

संस्कृत शिक्षा अनुभाग  
संख्या- 583/XLII-1/2019-02(03)2013  
देहरादून, दिनांक: 25 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-360/XLII-1/2018-02(05)2012, दिनांक: 17 मई, 2018 द्वारा डा0 प्रेम चन्द्र शास्त्री, अध्यक्ष संस्कृत संहिता सिद्धान्त विभाग, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, गुरुकुल परिसर, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार को उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डा0 प्रेम चन्द्र शास्त्री, उपाध्यक्ष, सामान्य समिति, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी को तात्कालिक प्रभाव से अन्य दायित्वधारी महानुभावों हेतु गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-30(1)/14/1/XXI/2012-15 T.C, दिनांक: 11 जनवरी, 2019 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-491/14/1/XXI/2012-15, दिनांक: 23 जुलाई, 2019 (छायाप्रतियां संलग्न) के द्वारा निर्धारित सुविधायें अनुमन्य की जाती हैं।

डा0 प्रेम चन्द्र शास्त्री को अनुमन्य सुविधाओं का व्यय-भार उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा वहन किया जायेगा तथा अनुमन्य वाहन एवं स्टाफ आदि की व्यवस्था भी उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा की जायेगी।  
संलग्नक-यथोक्त।

(इन्दुधर बौड़ाई)  
सचिव (प्रभारी)।

संख्या-583 (1)/ XLII-1/2019-02(03)2013 एवं तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार।
8. मुख्य शिक्षाधिकारी, हरिद्वार।
9. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
10. कुलपति, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हर्वाला, देहरादून।
11. डा0 प्रेम चन्द्र शास्त्री, उपाध्यक्ष, सामान्य समिति, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
(वीरेन्द्र पाल सिंह)  
संयुक्त सचिव।